




COGNIZANCE



*Like trees are forever there for colourful butterflies similarly
KMS has always been there for students who aspire to scale
new heights to achieve success.*

GUIDING PILLARS



Mr V.P Tandon
The Chairman



Ms Vandana Tandon
The Principal

KMS STALWARTS

KMS

Keen

Mindblowing

Scholars

Highlights

Webinars

Online classes

Summer camp



Ms Pramila Mishra
Academic Director




Ms Pushpa Jindal
Academic Coordinator

The fore seekers of the initiative



Ms Shalini Gupta
6th Coordinator



Ms Veena Aggarwal
7th Coordinator



Ms Jasvinder Kaur
8th Coordinator

THE TEAM



Kanchan Prabha



Sanju Mishra



Paramjit Kaur

CHAIRMAN'S MESSAGE....



Dear All,

Kamal Model School is renowned for providing quality education to young intellectual minds. Numerous generations of our students have already made their trademark in the world beyond school. I am proud of the students who have shown wonderful accomplishment of academic goals by making their institution and parents feel proud.

Students must remember, the real purpose of education is to create human beings capable of leading successful and productive life, contributing to the society for the betterment of all. An educated individual always cherishes and adheres to the morals and principles that he learnt in school and follows the path of righteousness.

Now during this time of pandemic situation where virtual learning has become a necessity, I am happy to state that our school members and teachers are striving hard to give their best to the students. Students must put in their best and utilise their precious time for their betterment.

In the words of Brad Henry *"Believe in yourself and the rest will fall in place, have faith in your abilities, work hard and there is nothing you cannot accomplish."* I bless all the dear students and wish them a purposeful, ambitious and committed life. I also extend my heartfelt thanks to all the parents for cooperating with us and envisaging their children's future and vision under our guidance.

While facing life's trials and tribulations, one should not forget...

"Every Champion was once a Contender that refused to give up."

Ved Prakash Tandon
Chairman



FROM THE PRINCIPAL'S DESK.....

Dear Students and Parents,

I reach out to you with both concern and optimism for the few months ahead that our students and staff will continue to “work from home” . Though the circumstances were not foreseen, I am optimistic because it will teach some valuable lessons to our students. First students must learn that the opportunity to go to school and acquire knowledge is a great blessing. Many children in the world are bereft of it but sometimes our students take it for granted. I hope they take the time to reflect and recognize how much their teachers and administrators love them and push them to be better.

Not only this but our students must also realize their responsibility for their learning. All our teachers are working tirelessly imparting them lessons through the online classes as well as through the other created groups. Students are advised to stay connected with their teachers of respective departments via online classes and various digital means to clarify their doubts. We are doing all we can to serve and support our students but, in the end, everything lies in their hands as they must use these resources to better themselves.

Finally I would like to say that ‘change is the law of nature’. This global crisis is a reminder that the world is moving towards virtual learning and if our students are not able to adapt, they will be left behind. Hence, students must take full advantage of the virtual learning which their teachers are imparting.

Parents, please do know that we are working here to support you and will continue to give our best and hope we are back to school as soon as possible but at present for the safety of all, it is important that we shift our learning approach right now to stop the spread of this virus.

Vandana Tandon
Principal

MESSAGE FROM ACADEMIC DIRECTOR



Dear Students and Parents

Online classes are humming with renewed smiles, energy and vigour. This electronic newsletter bears a testimony to the fact that challenges cannot stop us from learning and striding for achievements. Let this positive growth continue with the coordinated efforts of students, teachers and parents. We want these online classes to be the best part of your child's day - a time when they feel happy, engaged and involved. Our teachers use a variety of innovative instructional methods to nourish raw minds into gifted pearls of creative ideas, critical thinking, and communication skills. We also take initiatives to enrich the world of children with yoga, arts, music, dance and physical wellbeing.

I would like to thank our robust students for their cooperation, wonderful staff for their hard work and worthy parents to be partners in our efforts to create successful 21st century students.

(PRAMILA MISHRA)

Academic Director

Kamal, Vandana, Gurugram and Trinity

Group of Educational Institutions, Delhi NCR

MESSAGE FROM ACADEMIC COORDINATOR



Dear students and parents,

Thank you for your patience with us as we have worked through the safest way to impart education among our kids. Our top priority has been and will continue to be, the safety our students and staff. WE TRULY APPRECIATE YOUR COOPERATION DURING THIS HARD TIME. MAY YOU ALL STAY SAFE AND LIVE LONGER.....

REGARDS

(PUSHPA JINDAL)

Academic Coordinator

Kamal Model Senior Secondary School

Coordinator's messages

TEACHER – Unseen Corona Warriors

After the outbreak of Covid – 19 we are saluting and praising our 'Corona Warriors'. But why are we forgetting our teaching community?

During this pandemic, teachers have embraced the present situation with positivity. They are not only learning new methods of teaching online, but they are also trying their best to deliver it effectively and make it interesting too. When everyone is spending time with their families, teachers are devoting it for the betterment of the students.

For me, teachers are not less than any Warrior, they also deserve respect and thanks.

Shalini Gupta

6th coordinator

Dear students and parents,

The teaching profession has no doubt, been at the forefront in adapting to the changes brought about by the pandemics. Our teachers have adopted so many innovative methods to reach out to the students and haven't shied from the challenges thrown in the path of their responsibilities in these testing times. We indeed cannot clap with one hand. This wouldn't have been possible if the students wouldn't have participated in this exercise. We must appreciate our students for not only their active participation but also their heartfelt appreciation towards the hard work and perseverance put in by their teachers.

Veena Aggarwal

7th coordinator

Shield of mind

Advent of Covid-19, closing of schools, increasing number of cases, future plans hidden behind fogs of uncertainty and the effect of all of it on the minds of students and still we see students in high spirits, confidence, fearlessness and curiosity to know-it- all.

Who bestows so much of life into these little buds?

Obviously, the teachers...who relentlessly dedicate themselves in being a shield to protect the peace of mind, and tenderness of the hearts of students.

The entire teaching staff and parents deserves compassion and appraisal for channelizing revealed and latent, both the talents of children of India under the prevalent circumstances.

Thankyou.

Jasvinder Kaur

8th coordinator

WEBINAR

facebook /KAMALMODELSCHOOLSR.SEC.SCHOOL

KAMAL, VANDANA AND TRINITY GROUP OF EDUCATIONAL INSTITUTES

TAKES PLEASURE IN HOSTING A WEBINAR ON

IMMUNITY ENHANCEMENT THROUGH NATUROPATHY

In association with INO (International Naturopathy Organisation)

On June 9, 2020 at 5 PM

Resource Person: Dr. D.N Sharma
National Vice President, INO



Dr. D.N Sharma

Immunity Enhancement through Naturopathy

The eminent Resource person Dr. D N Sharma, National Vice President, INO delivered valuable information to the viewers regarding how one can boost one's immunity using Naturopathy and need not fear from Corona. Certain preventive measures for combatting coronavirus were also discussed.

Diet for Kids during Lockdown

The Resource person Dr Shallu Gupta, Director of Ojas and Samshudhi Nature Cure Centre shared tips on how to improve diet of kids during lock down. She also stressed upon the fact that children should eat fresh vegetables, fruits and take adequate sleep.



Dr Shallu Gupta

Kamal, Vandana and Trinity Group of Educational Institutes

takes pleasure in hosting a webinar on

Diet for Kids during Lockdown

In association with INO (International Naturopathy Organisation)

RESOURCE PERSON: DR. SHALLU GUPTA
DIRECTOR OF OJAS AND SAMSHUDHINATURE CURE CENTER

On June 10, 2020 at 5 PM

facebook /KamalModelSchoolSr.Sec.School

Memory Development and Eyesight Improvement

Everyone desires to have a sharp memory, and this is exactly what Yogacharya Yudhister Paul discussed in his webinar as he addressed his viewers stating that a culmination of proper diet with yoga, meditation and exercise can make one's memory sharp. On the other hand Acharyaji even told how one can keep his eyesight proper by taking herbal powder and doing regular exercise.




Yogacharya Yudhister Paul

IMPROVEMENT IN STUDENTS

In association with International Naturopathy Organisation

Resource person :





Locked in our home,

The lesson that nature has shown.
You mess with it greater,
will have to repent later.
Now life has turned upside down,
where nature is the master
and we are its clown
It's a wake-up call
where we have loads of things
on nature's part to resolve.

Pooja Rajput

अभिभावक
कभी अपनी जरूरतों का हिसाब नहीं किया
जो कुछ किया बच्चों के लिए किया
दिन-रात उनके लिए जिया
सोचते हैं क्या रखा है सजने सँवरने में
दो पैसे बचाते हैं बच्चों के भविष्य को
संवारने में
न जाने अभिभावक क्यों अपना दर्द छुपाते
हैं
स्वयं दो रोटी कम खा कर अपने बच्चों को
पढ़ाते हैं
कुछ करेंगे बच्चों के लिए यह सोच लिया
इस कोरोना काल में माँ बाप ने अपनी
जरूरतों को दबोच लिया
हमारे बच्चे हाथ न फैलाये किसी के आगे
बस यह सम्मान बचाते हैं
इस लिए अपने दुःख दर्द को छुपाते हैं
बच्चों की मुस्कान देख कर अपना गम
भूल जाते हैं
इसलिए अपना हर दर्द उनसे छुपाते हैं

शिक्षिका
नीलम



A Mother Like You

For all the times you've
been there
From the day I was born
You've always given me
courage to
Perform things I dare not
Your presence in times of
need
Helps me to know
How much you really care
Thank you Mummy,

Nisha Rajput

If there is a problem, it's time
to fix it
It's time to see your trouble
come to an end.
No matter how painful and
grim your life is
It is never hopeless,
If you look forward to a new
tomorrow.
If there is time to wish, there
is time to hope,
If there is time to pray, there
is time for healing.
So if through your window
there is a new day,
Thank God for the solution.

Simranjeet kaur

सृजन

हिंदी की कलम से
प्रिय पाठक
समय अत्यंत विषम है, परंतु यह भी सत्य है
कि ऐसी ही परिस्थिति में मनुष्य के धैर्य
और साहस की पहचान होती है। मैंने एक
शिक्षिका के तौर पर यह समझा कि इस
महामारी ने भी हम सबको बहुत कुछ
सिखाया। सहयोग, समर्पण, मितव्ययता
और त्याग जैसे गुणों का विकास निरंतर
हुआ है।
अभिभावकों, विद्यार्थियों और स्वयं में
तकनीक का अद्भुत योगदान रहा है। इसने
हमें बच्चों से दूर होने ही नहीं दिया। पढ़ाई
लिखाई के साथ-साथ अनेक प्रतियोगिताएं
भी आयोजित की गईं। जैसे वाद विवाद,
कविता पाठ, स्लोगन लेखन और नाट्य
प्रस्तुति। सबमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा
लिया।

समय जरूर बदलेगा
बस हम आप जुड़े रहे।
आसमान साफ होगा एक दिन
दुख के बादल छंट जाएंगे।
मिलेंगे एक दूजे के हाथ और साथ
परिदों के पंख टकराएंगे
हिंदी विभाग
संजू मिश्रा

No one can steal the will to move forward

Abiding by this, the Education
department continues to take fronts
during this pandemic
As said, "When student is ready,
the teacher appears."
This readiness of teachers to create a
glorified balance between completing
syllabus and conducting extra-
curricular activities is appreciable.
With creativity, they mould seconds
into moments of festivity
They deserve gratitude for their
untiring efforts to make this world a
better place

Sophiya

Students Corner



मेरा गाँव
हमारे घरों में
जितना पसरा है गाँव
उससे अधिक पसर गया है शहर
जितने है शीतल जल के घड़े, उससे अधिक प्यास
जितनी खिड़कियाँ, दीवारें कहीं अधिक,
जितनी हैं किताबें, कहीं अधिक दीमक,
जितने भीतर उनसे ज़्यादा बाहर,
जितने हैं असुरक्षित हम हमारे घरों में,
उससे ज़्यादा सुरक्षित
हमारे घर सपनों में हमारे।
आयान

MY FATHER, MY GUIDING LIGHT

My dad is the greatest,
WHY?

Because he played with me on his
chest,

He is too faithful and true

And always be there to guide,

How can I even forget

All those happy moments spent together

How I loved to wear his shoes,

And how I deliberately fell

To get the feel of his comforting hands

What is right and what is wrong

His suggestion always made me strong.

I promise you Dad

I will never do anything which will make you sad

I hope I will be your cutie pie

Making you always high

ANKITA ANAND

Dear daddy,

You are a dotting figure that is everyone's dear.

You are a man of words with everything so clear.

You are a person who is loving and kind;

And often you knows what I have on my mind.

You are a person who listens, suggests & defends;

You are one of my best friends.

A genuine friend who can guide till the end..

You are a person who helps not only in daily tasks;


But also helps me to see through the masks.

You are proud of my triumphs

But when I go toward wrong

You become patient, helpful & strong.

In all that you do, a dad's love plays a part

There's always a place for him deep in my  heart.

I wish you happiness and a beautiful life all along;

Just like a swift, smooth and melodious song.

The fun has also been a part of this beautiful journey;

Father! Do you remember our sessions of the exciting
journey?

Aayushi

DREAMS

We have one life

Hundreds of dreams

But we must fulfil them at any cost

And must cross many streams.

Haters will pull you down

But your loved ones will give you

A beautiful crown

Once you get all your dreams come true

All the bad memories will soon fly away
from you.

Jahnavi Srivastava

LIFE HAS CHANGED

Four months back life was fun,
we were carefree having our bun.

Pandemic brought the Change,
everything is out of our range.

When the days will come,
to end our glum.

Oh! God have mercy,
we won't repeat the history.

Story of every KID



CORONA ko HARANA Hai



कोरोना समाचार

Page No. _____
Date _____

मुलक, जब में उती निरी कोन पर ऑनलाइन काक्षा शुरु होने वाली थी। जैसे में तयार लेकर अपनी कक्षा ली और उसके बाद जब में टी वी देखने गई, सबसे पहले कोरोना से बचने के उपाय दूरदर्शन पर आ रहे थे।

कोरोना से संक्रमित लोगों कि संख्या बढ़ती जाती है। नए लॉकाउट के नियम मानदूरी को अपने घर जाने के लिए जो कठिनाई थी अंजनी पड़ी है। यह



JUNE



June Celebrations around the World

June

1

WORLD MILK DAY




June

12



CHILD LABOUR



June

5




5 JUNE

WORLD ENVIRONMENT DAY

Mother Earth is the culmination of multiple and diverse energies, which is brought together to create a rich aesthetic experience with a message of harmony and co-existence. The World Environment Day which comes on 5 June every year is an event that reminds people that we should not take nature for granted.

In keeping with the theme of this year's World Environment Day 'Celebrate Biodiversity', our students showcased their concern to save the environment by making posters, slogans and even planting saplings.






14th JUNE
WORLD BLOOD DONOR DAY
SAVE A LIFE GIVE BLOOD

WORLD BLOOD DONOR DAY 14th June



SMITA KAPURIA
CLASS-VIII-I



World Blood Donor Day



June

21




It's Time To De-stress

"Yoga is the journey of the self, through the self, to the self." Apart from regular academic classes online yoga classes are also conducted where students perform various asans, practice meditation, stretching exercises and the most important eye relaxation exercises which provide both mental and physical relaxation.



योग का महत्व
आओ मिलकर योग करें
अनावश्यक वस्तुओं का न भोग करें
योग सीखे-सिखाये और सबका भला करें
दूर हो सारे चीर विकार
स्वस्थ शरीर रहे न कोई बीमार
आओ हम सब मिलकर योग को अपनाएं
बिना कुछ खर्च करे जीवन को स्वस्थ बनाये
योग के द्वारा करोना जैसी महामारी को दूर भगाएं
अपने सुंदर भारत का सम्मान बढ़ाये!!

शिक्षिका,
नीलम



Yoga is a type of exercise which is practiced for physical and mental health. It increases our flexibility, Improves respiration, Gives protection from injuries and also helps in weight reduction.





अपनी पेंटिंग के माध्यम से जनजागरूकता का संदेश दे रही अनुष्का



The tide turner's plastic challenge

“We have not inherited this Earth from our forefathers; we have borrowed it from our children. “

Keeping this in mind this challenge is designed to focus on the deteriorating health of Earth because of human being's growing lust for plastic. Plastics are inexpensive and durable and as a result levels of plastic production by humans are high. The chemical structure of most plastics renders them resistant to many natural processes of degradation. Thus plastic has proved itself as the biggest pollutant in this world.

The objectives of this challenge include making everyone around us aware of the threat of plastic pollution and motivate all to reduce its consumption. It also aims to find youth leaders who inspire others.

The challenge comprises three levels - Entry, Leader and Champion. Many young champs of our school successfully cleared the entry level with their activities designed to reduce the consumption of plastic. Wishing them good luck to clear the next two levels successfully and emerge youth leaders who contribute towards preservation of the environment for our future generations.





ONLINE CLASSES & ONLINE PTM



Virtual Classes - Nothing Can Stop Us

With the announcement of the lockdown in the month of March due to covid-19 the question arose of how to carry on the education of the students,. Our Honourable Principal, Mrs Vandana Tandon with her quick presence of mind opted for virtual classes. This method of teaching was no doubt new to all yet within no time both students and teachers took to it in a quite easy manner. The novel way to education and learning was soon liked by all students. They enjoyed their virtual classes and have learnt to adapt themselves according to the prevalent situation.

Online PTM


Be it offline or online, we at Kamal Model are always eager to meet our student's parents. Hence, regular online PTMs were conducted to discuss the student's performance and progress and to make learning more effective. It was great to meet all our dear parents and receive their constructive feedback.



PTM

ACTIVITY

MEDITATION





- मनोरंजक झलकियां
- कथा वाचन, काव्य मंचन
- बेहतर तकनीकि "मैं हूं खास"
- मजदूरों का पलायन ऐकल अभिनय

अभिनाय कॉर्नर

अभिनय भावना अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इस क्षेत्र में कक्षा 6,7 और 8के बच्चों ने स्वयं को साबित कर दिखाया। बच्चों के अभिनय की सराहना करते हुए चेयर पर्सन श्री वेद प्रकाश टंडन जी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में बच्चे एक मुस्कान बनकर उभरे हैं, इनके साथ तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाएगी। सभी सह संयोजिका कक्षा 8 जसविंदर कौर कक्षा 7 श्रीमती वीना अग्रवाल कक्षा 6 श्रीमती शालिनी गुप्ता ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दीं।

लेखन एवं वाचन

कविता और उत्तम तकनीकि की सार्थकता जताते हुए कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों ने हरदीप कौर और सुश्री नरेंद्र बाला के कुशल मार्गदर्शन में बच्चों ने 'मैं हूं खास' का वीडियो मंचन किया।

श्रीमती प्रमीला मिश्रा ने बताया कि बच्चों में ऑनलाइन पढ़ाई और अलग अलग कार्यक्रमों में बहुत जागरूकता है।

बच्चों ने अपने कला कौशल को निखारते हुए कथा लेखन में भी अपनी प्रतिभा को साबित किया।






कहानी का शीर्षक था "एक दिन लॉक डाउन में"। सभी छात्र और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर अपनी कला को आयाम दिया। इसका मार्गदर्शन सुश्री पूजा शर्मा ने किया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6,7 और 8 वीं के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

प्रधानाचार्या श्रीमती वंदना टंडन ने बच्चों को हार्दिक बधाई देते हुए बताया कि आज जब पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, हमारा कमल परिवार और सारे अभिभावक हमारे साथ हैं। शैक्षिक सलाहकार श्रीमती पुष्पा जिंदल ने बच्चों से आत्मविश्वास की प्रेरणा लेने के लिए कहा कि ये बच्चे अदभ्य साहस के प्रतीक हैं।

CREATIVE HANDS



folk art (mandala)
summer activity



SUBJECTS



Activity based learning

At KMS we believe in imparting teaching through activity method where learning by doing is the main focus. Students participate vigorously in learning the various concepts of different subjects through project experiments, crossword puzzles, role play, dramatization etc. This not only develops the love for learning but helps to unfurl the students' hidden creative talent.



Topic- My Culture and Traditions


Students of class 6th performed a virtual activity on the topic 'My Culture and Tradition' in a very beautiful manner. The main objective to conduct this activity was to make students aware of the diversity of India. This activity was conducted in accordance to inculcate a feeling of acceptance of diversity around them as this is the right age for children to have a better understanding of diversity around them. For this students made posters in which they described their culture and tradition. Also, during the virtual classes' enactment was conducted in which students enthusiastically shared about their culture and tradition wearing the ethnic dresses of their respective cultures.

Topic-Mother Earth

Students of class 7 were asked to imagine nature during their virtual class as they were reading poem "Poem of the One World". Students shared their views what is nature for them. Under the guidance of their teachers they portrayed nature with colors, and they showed their artistic skills.

Topic-Bermuda Triangle Enigma

Students are doing their best in every field. Here are some pictures of the activity The Bermuda Triangle. There was a discussion with teacher and students about facts, theories and notable incidents of this mystery. Later on posters were prepared. Through this activity teachers did try their best for students to explore the world even in this pandemic situation.



SUMMER CAMP

CLUBS





- ART-TULIKA
- HINDI-SRIJAN
- ENGLISH- THE ELEGANT TALKIES
- SCIENCE- ENIGMA FORTNITE
- MATHS- FIGURIESTA
- SOCIAL SCIENCE-THE PAGE TURNERS
- COMPUTER- CODE
- FRENCH-FRANCOPHONE
- SANSKRIT-NAV ALOKAN



Activity : Food Varieties in India



Mentor : Bharamjeet Kaur



KMS Summer Activities 2020
 English Club-VI
 GIFT FOR GAB
 Teacher Incharge - Ms. Pushpita Nanda
 Declaration topic - Real are the Reel Class
 Congratulations Winners
 1st position- Eshani Dass (VI-D)
 2nd position-Aarjoo Parmar (VI-D)
 3rd position-Ragini Bhatt (VI-C)
 4th position-Aditi Raj (VI-D)
 Consolation prize-
 Katyayani (VI-D)
 Ananya (VI-G)



Class 8th maths activity

SUMMER CAMP


THE PAGE TURNERS CLUB CLASS-VI Activity- Heavenly Orb



Class 8th activity

Class 8th activity

Page turners
constitution
deliate personae



dra Prasad (3 December 1884 – 28
ary 1963) was an Indian independence
st, lawyer, scholar and subsequently, the
resident of India, in office from 1950 to
He was an Indian political leader and
r by training.

PAGE TURNERS

WHERE THE HISTORICAL RECORDS WERE PRESERVED??

Records were preserved during g the British rule by establishing archives



HETEROGRAPHY BY CLASS 6 STUDENTS



STUDENTS



DEAR TEACHERS

I would like to say thanks very much for continuing the classes even in the pandemic situation due to covid-19. online classes are new and exiting for students and due to it there is no any damage in study even in the lockdown period.

Regards,
Ranjit Kr. Singh,
Sarita Singh.

Student's Name: Pranshi Singh(6B)

Thank you,
Teachers!



You have worked so hard in shaping me into the student I am today. I thank you for being such an amazing teacher and for all your great lessons. I feel so fortunate to have been placed in your class. You have amazed and inspired me daily and for that I am thankful because you are truly a wonderful teacher.

Anushka Gautam 6th A

students an opportunity to learn from their homes in this epedemic. Teachers are taking a great responsibility to teach children.. They are teaching with so much dedication and care.. And with proper time table.. Children are studying under perfect guidance of teacher.. Thanks to all the teachers of K.M.S. 😊

😊 Wahib 8B



The step taken by your side to provide online classes to students is really appreciable. Students can study at home without going to school and they're provided with good quality education. The teachers too are working very hard for the students.

Regards 😊
Simmi Jha
(Anubhav Jha's [7-A]Mother)



I am very happy for these online classes
Because the situation now is very critical but still the teachers and school management are making efforts for the students education
Thanks you teachers
parents name:mr. Ameet kumar
mrs.meenakshi
student name: Moksh 6th D

A TEACHER TAKES A HAND, OPENS A MIND & TOUCHES A HEART. ❤️
Thanks to all the hard-working TEACHERS!
We appreciate your dedication to our kids!

As a parent of Nishka
A student of Kamal model school,
I am very happy for these online classes
The situation now is very critical but still the management are making efforts for the students education
Thank you teachers
parents name:mr. Ameet kumar
mrs.meenakshi
student name: Moksh 6th D
Thank You

Dear Teachers
I would like to say thanks to teachers and management of Kamal model school. All of you know that lockdown is done everywhere because of covid-19. But the teachers give online classes on online apps with their best efforts. But I am happy to say that the students are taking the class seriously. From myself thanks to all the teachers and management of Kamal model school
Sangeeta chaurasia mother of yashvi chaurasia 6 A

Thank you!

I may not say it always.
But, I mean it whenever I say it.
Thank you teacher.
For all the things you

The INFLUENCE
Of a good
TEACHER
Can Never
Be ERASED

